

1. Banking Policy justifying monetary policy annual rate of



is is the feature of  
(B) Hemi-chordata  
(D) Dermata

20' was recently

tion of India  
aphic Survey of India  
Survey of India  
Survey of India

'MEWAR' is written as  
'URAT' written in that

(B) HEIZG  
(D) HFIZG

wing is the types  
fruits ?

(B) Samara  
(D) Achene

9, 48, 51, 63, 75, 83, x and  
value of x is

(B) 53  
(D) 51

sulphur are

(B) Macro nutrients  
nts (D) Organic matters

1 tragedy is the result of the  
is chemical called

anate (B) Ethylene oxide  
cilate (D) None of the above

ting in a row. A is on the left  
e right of B. E is on the left  
: right of C. Who sits on the

(B) C and E  
(D) A and B

1. एक केंद्रीय बैंकिंग नीति है जो एक निर्दिष्ट वार्षिक मुद्रास्फीति दर को प्राप्त करने के लिए समायोजक मौद्रिक नीति के चारों ओर घूमती है।

- (A) मुद्रास्फीति का बंद होना  
(B) मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण  
(C) मुद्रास्फीति का पीछे रहना  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. सूंड वाले कृमि किसकी विशेषता है ?

- (A) कॉर्डेटा (B) हेमी-कॉर्डेटा  
(C) इचिनोडर्मेटा (D) डर्मेटा

3. 'प्लांट डिस्कवरी 2020' हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ?

- (A) भारत का पादप संगठन  
(B) नेशनल जीओग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया  
(C) भारतीय जैविक सर्वेक्षण  
(D) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण



4. एक कूट में 'MEWAR' को 'NVDZI' लिखा जाता है, उस कूट में 'SURAT' को कैसे लिखा जाएगा ?

- (A) HIFZG (B) HEIZG  
(C) HFZIG (D) HFIZG

5. निम्न में से कौन-सा सूखे डिहिसेंट (अस्फोटी) फल का प्रकार है ?

- (A) सिलिका (फली) (B) समेरा  
(C) अखरोट (D) अचने

6. यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69 का औसत 60 है, तो x का मान कितना है ?

- (A) 50 (B) 53  
(C) 52 (D) 51

7. मैग्नीशियम और सल्फर \_\_\_\_\_ हैं।

- (A) पोषक तत्व (B) बृहद पोषक तत्व  
(C) सूक्ष्म पोषक तत्व (D) जैविक पदार्थ

8. 1984 की भोपाल त्रासदी \_\_\_\_\_ नामक जहरीले रसायन के रिसाव का परिणाम है।

- (A) मिथाइल आइसोसाइनेट (B) एथिलीन ऑक्साइड  
(C) मिथाइल सैलिसिलेट (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. पाँच लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। A D के बाएँ है और B के दाएँ है। E B के बाएँ परंतु C के दाएँ है। दोनों छोर पर कौन बैठा है ?

- (A) D और E (B) C और E  
(C) C और D (D) A और B

ed to select at most  
tion of  $(2n + 1)$  books. If  
s in which he can select

- (B) 6
- (D) 4

ences given in the Code  
re under

- (B) Section 482
- (D) I Schedule

ted to

et financing  
st financing  
as financing  
t financing

itions of the same

Select the letter  
ic face opposite to  
'N'.



- (B) M
- (D) W

is the scheme that shall  
um - long term debt financing  
estment in viable projects for  
management infrastructure  
ity farming assets through  
ntion and financial support.


onetary Fund

and

re Infrastructure Fund

)

enters a magnetic field at right  
as shown in the figure. The  
force acting on the electron will



Iron  
right  
f the page

- (B) Into the page
- (D) To the left

10. एक छात्र को  $(2n + 1)$  पुस्तकों के संग्रह से अधिकतम  
 $n$  पुस्तकों का चयन करने की अनुमति है। यदि किसी पुस्तक  
का चयन करने के कुल तरीकों की संख्या 63 है, तो  $n =$

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 4

11. आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में \_\_\_\_\_ के अंतर्गत अपराधों  
का वर्गीकरण दिया गया है।


- (A) दूसरी अनुसूची
- (B) धारा 482
- (C) धारा 320
- (D) पहली अनुसूची

12. मुद्रास्फीति उत्तरदायी है

- (A) ऋणात्मक बजट वित्तीय
- (B) घनात्मक बजट वित्तीय
- (C) बजट आधिशेष वित्तीय
- (D) बजट घाटा वित्तीय



13. एक पासे की 2 भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। वह अक्षर चुनिए  
जो 'N' के विपरीत फलक पर होगा।



- (A) E
- (B) M
- (C) O
- (D) W

14. \_\_\_\_\_ एक योजना है जो ब्याज अनुदान और  
वित्तीय सहायता के माध्यम से कटाई परचात  
प्रबंधन आधारभूत संरचना और सामुदायिक कृषि  
के लिए संभाव्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक  
मध्यम-दीर्घावधि ऋण वित्तीय सुविधा उपलब्ध  
कराए।

- (A) भारतीय मुद्रा निधि
- (B) ए.पी.एम.सी. निधि
- (C) कृषि आधारभूत संरचना निधि
- (D) नाबाई

15. एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत कोण प्रवेष्ट  
होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत  
बल की दिशा होगी



- (A) दाएँ ओर
- (B) पृष्ठ के भीतर
- (C) पृष्ठ से बाहर
- (D) बाएँ ओर



amber whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5, is

- (A) 200 (B) 220  
(C) 160 (D) 180

The annual net primary productivity of the whole biosphere is

- (A) 170 million tons (B) 115 billion tons  
(C) 180 billion tons (D) 170 billion tons

The thermal decomposition of HI on gold surface is an example of \_\_\_\_\_ order reaction.

- (A)  $n^{\text{th}}$  (B) Second  
(C) Zero (D) First

Which of these are examples of man-made ecosystem ?

- (A) Wetland (B) Forest  
(C) Crop field (D) Estuary

If a number is multiplied by three-fourth of itself, then the value thus obtained is 10800. What is that number ?

- (A) 120 (B) 160  
(C) 210 (D) 180

Malignant malaria is caused by

- (A) *Anabellatyphi*  
(B) *Plasmodium falciparum*  
(C) *Salmonella typhi*  
(D) *Shiegellatyphi*

2. Consider the following statements about Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.

- I. It is a flagship scheme for focused and sustainable development of fisheries sector in the country.  
II. It aims at enhancing fish production by an additional 70 lakh tonne by 2024-25, increasing fisheries export earnings to Rs. 1,00,000 crore by 2024-25.

- (A) Only the statement I is correct  
(B) Both the statements I and II are correct  
(C) Only the statement II is correct  
(D) None of the above

16. एक संख्या जिसके पांचवें भाग में 5 की वृद्धि हुई, उसके चौथे भाग में 5 से कमी के बराबर है, वह है

- (A) 200 (B) 220  
(C) 160 (D) 180



17. संपूर्ण जैवमंडल की वार्षिक निवल प्राथमिक उत्पादकता है

- (A) 170 मिलियन टन (B) 115 बिलियन टन  
(C) 180 बिलियन टन (D) 170 बिलियन टन

18. स्वर्ण परत पर एच.आई. का ऊष्मीय अपघटन \_\_\_\_\_ क्रम की अभिक्रिया का एक उदाहरण है।

- (A)  $n^{\text{वाँ}}$  (B) द्वितीय  
(C) शून्य (D) प्रथम

19. निम्नलिखित में से कौन-सी मानवनिर्मित परिस्थिति की तंत्र है ?

- (A) आर्द्र भूमियाँ (B) जंगल  
(C) खेत (D) एस्चुरी

20. यदि किसी संख्या को इसके तीन-चौथाई से गुणा किया जाए, तो उसका मान 10800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है ?

- (A) 120 (B) 160  
(C) 210 (D) 180

21. मैलिगैट मलेरिया \_\_\_\_\_ के द्वारा होता है।

- (A) एनाबेला टाइफी  
(B) प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम  
(C) साल्मोनेला टाइफी  
(D) शीगैला टाइफी

22. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- I. यह देश में मत्स्य क्षेत्र के केंद्रित और संपोषणीय विकास हेतु एक फ्लैगशिप योजना है।  
II. इसका उद्देश्य एक अतिरिक्त 70 लाख टन 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाते हुए, 2024-25 तक मत्स्य निर्यात आय को रु. 1,00,000 करोड़ तक बढ़ाना है।

- (A) केवल कथन I सत्य है  
(B) कथन I और II दोनों सत्य हैं  
(C) केवल कथन II सत्य है  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which Indian district hosts India's highest arboreal park ?

- (A) Chamoli (B) Pauri Garhwal  
(C) Uttarkashi (D) Dehradun

World Press Freedom day is celebrated every year on

- (A) 4<sup>th</sup> March (B) 5<sup>th</sup> April  
(C) 3<sup>rd</sup> May (D) None of the above

Find the missing letters in the sequence.

ef \_ fe \_ fggf \_ e \_ gg \_ e

- (A) ggefefe (B) ggeeff  
(C) gggfeg (D) ggeefg

In 2021 Asian Table Tennis Championships was held at

- (A) Beijing  
(B) Katmandu  
(C) Doha  
(D) Abudhabi

17. Let PQ be 32 km, A man starts from P and walks 16 km on first day. On the second day he walks 8 km on the third day, he walks 4 km and so on. When will he reach Q ?

- (A) In 16 days (B) In 32 days  
(C) In 8 days (D) None of these

28. Find the missing term in the series.

- A, E, J, O, \_\_\_\_\_  
(A) T (B) V  
(C) S (D) None of these

29. The biological process in which an organism gives rise to young ones (offspring) similar to itself

- (A) Transduction (B) Evolution  
(C) Reproduction (D) Production

30. 12 : 144 :: ?

- (A) 15 : 135 (B) 10 : 140  
(C) 22 : 464 (D) 20 : 400

31. FAME-II scheme is related to

- (A) Agricultural sector  
(B) IT sector  
(C) Automobile sector  
(D) None of the above

23. भारतीय जिले में भारत के सबसे अधिक हर्बल पार्क है ?

- (A) चमोली (B) पौरी गढ़वाल  
(C) उत्तरकाशी (D) देहरादून

24. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है ?

- (A) 4 मार्च (B) 5 अप्रैल  
(C) 3 मई (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

25. दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात करें।

ef \_ fe \_ fggf \_ e \_ gg \_ fe

- (A) ggefefe (B) ggeeff  
(C) gggfeg (D) ggeefg

26. 2021 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप \_\_\_\_\_ में हुई।

- (A) बीजिंग  
(B) काठमांडू  
(C) दोहा  
(D) आबुधाबी

27. PQ माना 32 किमी है। एक व्यक्ति P से आरंभ करके पहले दिन 16 किमी चलता है। दूसरे दिन 8 किमी चलता है। तीसरे दिन 4 किमी चलता है और ऐसे ही आगे भी चलता है। वह Q तक कब पहुँचेगा ?

- (A) 16 दिनों में (B) 32 दिनों में  
(C) 8 दिनों में (D) इनमें से कोई नहीं

28. निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें।

- A, E, J, O, \_\_\_\_\_  
(A) T (B) V  
(C) S (D) इनमें से कोई नहीं

29. वह जैविक प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देता है

- (A) पारगमन (B) विकास  
(C) जनन (D) उत्पादन

30. 12 : 144 :: ?

- (A) 15 : 135 (B) 10 : 140  
(C) 22 : 464 (D) 20 : 400

31. एक.ए.एम.ई.-II योजना \_\_\_\_\_ से संबंधित है।

- (A) कृषि क्षेत्र  
(B) आई.टी. क्षेत्र  
(C) ऑटोमोबाइल क्षेत्र  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं



32. The Trusteeship Council of UNO was suspended on 1<sup>st</sup> November 1994 with independence of its last trust territory.

- (A) East Timor (B) Thailand  
(C) Palau (D) Nigeria

Which letter would complete the puzzle ?

M	J	E
C	N	H
P	X	?



- (A) N (B) P  
(C) J (D) M

33. The UN charter consisted of

- (A) 111 Articles (B) 125 Articles  
(C) 390 Articles (D) 110 Articles

34. Find out the n<sup>th</sup> term of 3, 9, 27, 81,....

- (A)  $3^n$  (B)  $3^{n-2}$   
(C)  $3^{n-1}$  (D)  $3^{n-1}$

35. \_\_\_\_\_ is an auto-identification technology, which is used to capture & transmit identification details of an wirelessly.

- (A) Webcam  
(B) Brain Computer Interface (BCI)  
(C) Radio Frequency Identification (RFID)  
(D) Internet Protocol Television (IPTV)

36. The anionic sites occupied by unpaired electrons are called

- (A) G-centres (B) F-centres  
(C) C-centres (D) E-centres

37. \_\_\_\_\_ is an unsubtle play of words on Microsoft's Back Office suite of programs for NT server.

- (A) WANK  
(B) Back Orifice  
(C) SPAM  
(D) None of these

38. The total number of time zones in the world

- (A) 7 (B) 2  
(C) 24 (D) 11

32. अपने किस अंतिम ट्रस्टी की स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ का ट्रस्टीशिप परिषद निलंबित कर दिया गया ?

- (A) पूर्वी तिमोर (B) थाईलैंड  
(C) पलाऊ (D) नाइजीरिया

33. प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सा अक्षर आएगा ?

M	J	E
C	N	H
P	X	?

- (A) N (B) P  
(C) J (D) M

34. संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल है

- (A) 111 अनुच्छेद (B) 125 अनुच्छेद  
(C) 390 अनुच्छेद (D) 110 अनुच्छेद

35. 3, 9, 27, 81,.... का n वाँ पद ज्ञात करें।

- (A)  $3^n$  (B)  $3^{n-2}$   
(C)  $3^{n-1}$  (D)  $3^{n-1}$

36. \_\_\_\_\_ एक स्व-पहचान तकनीक है, जो एक वस्तु का पहचान विवरण बेतार लेने और अंतरण के लिए प्रयुक्त होती है।

- (A) वेबकाम  
(B) ब्राइन कम्प्यूटर इन्टरफेस (बी.सी.आई.)  
(C) रेडियो फ्रीक्वेन्सि आइडेन्टिफिकेशन (आर.एफ.आई.डी.)  
(D) इन्टरनेट प्रोटोकॉल टेलिविजन (आई.पी.टी.वी.)

37. अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरे गए ऋणायन स्थान हैं

- (A) G-केंद्र (B) F-केंद्र  
(C) C-केंद्र (D) E-केंद्र

38. \_\_\_\_\_ शब्दों के स्पष्ट खेल का एन.टी. सर्वर हेतु प्रोग्राम का माइक्रोसॉफ्ट बैक ऑफिस पर समुच्चय है।

- (A) डब्ल्यू.ए.एन.के.  
(B) बैक ऑफिस  
(C) एस.पी.ए.एम.  
(D) इनमें से कोई नहीं

39. विश्व में कुल समय क्षेत्रों की संख्या

- (A) 7 (B) 2  
(C) 24 (D) 11

3. The greatest number, which when subtracted from 5834, gives a number exactly divisible by each of 20, 28, 32 and 35, is

- (A) 1120 (B) 5600  
(C) 5200 (D) 4714

1. In PowerPoint 2003 to change the background of the presentation, you need to select background from the \_\_\_\_\_ menu.

- (A) Format (B) Edit  
(C) View (D) File

1. With respect to armed police, the head of a battalion is called the

- (A) Commander in Chief  
(B) Deputy Commander  
(C) Commando  
(D) Commanding Officer

1. Which is the first Paleolithic site found in India ?

- (A) Tiruanalveli in Tamil Nadu  
(B) Kathewar in Gujarat  
(C) Sohan river basin  
(D) Ajmer in Rajasthan

1. In Excel, the option present in \_\_\_\_\_ tab allow you to lock the selected cell.

- (A) Protection (B) Format  
(C) Font (D) Patterns

1. Eight college students A, B, C, D, E, and H are sitting around a circular table playing a game. Four of them A, B, E and F are not facing the centre. D is third to the left of H, who is fourth to the right of E. A is third to the right of B, who is third to the left of D. F is second to the left of C.

How many people sit between G and B ? (if the counting starts from B in clockwise direction)

- (A) Three (B) Four  
(C) One (D) Two

The term \_\_\_\_\_ refers to the person with the intention of finding some weak points in the security of websites and other computer systems in order to gain unauthorised access.

- (A) Fraud (B) Hacker  
(C) Cracker (D) Theft

40. वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, जो 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है

- (A) 1120 (B) 5600  
(C) 5200 (D) 4714

41. पवर पॉइंट 2003 में प्रस्तुति की बैकग्राउंड परिवर्तित करने के लिए, आपको \_\_\_\_\_ मेनु से बैकग्राउंड चुनना होगा।

- (A) फॉरमेट (B) एडिट  
(C) व्यू (D) फाइल

42. सशस्त्र पुलिस के सापेक्ष, बटालियन का मुखिया \_\_\_\_\_ कहलाता है।

- (A) मुख्यकमांडर  
(B) उपकमांडर  
(C) कमांडो  
(D) आदेशकारी अधिकारी

43. भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थान कौन-सा है ?

- (A) तिरुनलवेली, तमिलनाडु  
(B) कठेवार, गुजरात  
(C) सोहन नदी बेसिन  
(D) अजमेर, राजस्थान

44. एक्सेल में \_\_\_\_\_ टैब में विकल्प आपको चयनित सेल को ताला लगाने की अनुमति देता है।

- (A) प्रोटेक्शन (B) फॉरमेट  
(C) फॉन्ट (D) पैटर्न

45. किसी महाविद्यालय के 8 विद्यार्थी A, B, C, D, E, F, G एवं H एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठकर कोई खेल खेल रहे हैं। उनमें से A, B, E और F का मुख केंद्र की ओर नहीं है। D, H के बाएँ ओर से तीसरे स्थान पर है जो कि E के दाहिने से चौथे स्थान पर है। A, B के दाएँ से तीसरा है जो कि D के बाएँ से तीसरा है। F, C के बाएँ से दुसरा है। G और B के बीच में कितने लोग बैठे हैं ? (अगर घड़ी की दिशा में B से गिनती शुरू की जाए)

- (A) तीन (B) चार  
(C) एक (D) दो

46. शब्द \_\_\_\_\_ उस व्यक्ति से संदर्भित है जो अप्राधिकृत पहुँच प्राप्त करने हेतु वेबसाईट और अन्य कंप्यूटर प्रणालियों की सुरक्षा में कुछ कमजोर बिंदु ढूँढ़ने की मंशा रखते हैं।

- (A) फ्रॉड (B) हैकर  
(C) क्रैकर (D) थैफ्ट



47. According to this Article of Indian Constitution a money bill shall not be introduced in the Council of States.
- (A) Article 102  
(B) Article 109  
(C) Article 110  
(D) Article 105
48. \_\_\_\_\_ lets you perform fancy effects on words/letters .... upside down writing, words on an angle or a curve etc.
- (A) Clipart (B) Pictures  
(C) Wordart (D) None of the above
49. *Erwinia carotovora* causes
- (A) Aster yellows (B) Soft rot  
(C) Crown gall (D) Forest soil
50. A leader who is goal-oriented and large concerned with accomplishing set t
- (A) Authoritarian leader  
(B) Bureaucratic leader  
(C) Instrumental leader  
(D) All of the above
51. 50 years of Bangladesh War of Liberation was celebrated in the year
- (A) 2019 (B) 2018  
(C) 2021 (D) 2020
52. The Shimla agreement in 1972 was signed between
- (A) India-Nepal (B) India-Pakistan  
(C) India-China (D) India-Bangladesh
53. The ratio between the radius of the base and the height of a cylinder is 2:3. If its volume is  $1617\text{cm}^3$ , the total surface area of the cylinder is
- (A)  $540\text{cm}^2$  (B)  $770\text{cm}^2$   
(C)  $308\text{cm}^2$  (D)  $462\text{cm}^2$
47. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता ?
- (A) अनुच्छेद 102  
(B) अनुच्छेद 109  
(C) अनुच्छेद 110  
(D) अनुच्छेद 105
48. \_\_\_\_\_ आपको शब्दों/अक्षरों पर सज्जायुक्त प्रभाव निष्पादित करने, किसी कोण अथवा वक्र पर शब्द आदि ऊपर नीचे लिखने देता है।
- (A) क्लिपआर्ट (B) पिक्चर्स  
(C) वर्डआर्ट (D) उक्त में से कोई नहीं
49. इरविनिया कारोटोवोरा के कारण क्या होता है ?
- (A) एस्टर येलोस (B) सॉफ्ट रॉट  
(C) क्रौउन गॉल (D) फॉरेस्ट सॉइल
50. एक नेता जो लक्ष्य-उन्मुख है और बड़े पैमाने पर निर्धारित कार्य को पूरा करने से संबंधित है
- (A) सत्तावादी नेता  
(B) नौकरशाही नेता  
(C) सहायक नेता  
(D) उपरोक्त सभी
51. बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का 50 वां वर्ष \_\_\_\_\_ वर्ष में मना गया है।
- (A) 2019 (B) 2018  
(C) 2021 (D) 2020
52. वर्ष 1972 में शिमला समझौता किनके बीच हुआ था ?
- (A) भारत-नेपाल (B) भारत-पाकिस्तान  
(C) भारत-चीन (D) भारत-बांग्लादेश
53. आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच का अनु 2:3 है। यदि इसका आयतन  $1617\text{cm}^3$  है, तो बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है
- (A)  $540\text{सेमी}^2$  (B)  $770\text{सेमी}^2$   
(C)  $308\text{सेमी}^2$  (D)  $462\text{सेमी}^2$

- tands for  
Common Line Interface  
Common Line Interaction  
Command Line Interface  
Command Line Interaction



Pratap is on the 13<sup>th</sup> position from the starting and on the 17<sup>th</sup> position from the end of his class. He is on 8<sup>th</sup> position from the starting and on 13<sup>th</sup> position from the end among the students who passed. How many students failed?

- (A) 7  
(B) Cannot be determined  
(C) 8  
(D) None of the above

Which of the following is the rupee denomination of bonds issued outside India by Indian entities?

- (A) Bharath Bonds (B) Masala Bonds  
(C) Sugar Bonds (D) None of the above

The value of  $\left[ \frac{(2.3)^3 - 0.027}{(2.3)^2 + 0.69 + 0.09} \right]$  is

- (A) 2.33 (B) 2.27  
(C) 2.6 (D) 2

When barrier bars and spits form at a mouth of a bay and block it, results in the formation of

- (A) Estuary (B) Beach  
(C) Lagoons (D) Barrier reefs

The exoskeleton of Cockroach is made up of

- (A) Collagen (B) Chitin  
(C) Chondratin (D) Chondratin sulphate

Which Section of IT Act deals with Hacking of computer systems and its penalties?

- (A) Section 62 (B) Section 67  
(C) Section 65 (D) Section 66

Mohini went to the movies nine days ago. She goes to the movies only on Thursday. What day of the week is today?

- (A) Sunday (B) Tuesday  
(C) Thursday (D) Saturday

54. सी.एल.आई. का मतलब है

- (A) कॉमन लाइन इंटरफेस  
(B) कॉमन लाइन इंटरएक्शन  
(C) कमांड लाइन इंटरफेस  
(D) कमांड लाइन इंटरएक्शन

55. मयल प्रताप अपने क्लास में शुरू से 13 वें स्थान पर तथा अंत से 17 वें स्थान पर है। जो सफल हुए हैं उसमें शुरू से उसका स्थान 8 वां है जबकि अंत से 13 वां वर्ग में कितने विद्यार्थी असफल रहे?

- (A) 7  
(B) निर्धारित नहीं किया जा सकता  
(C) 8  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

56. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के बाहर भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी किया गया रुपया मूल्यवर्ग का बांड है?

- (A) भारत बांड (B) मसाला बांड  
(C) चीनी बांड (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

57.  $\left[ \frac{(2.3)^3 - 0.027}{(2.3)^2 + 0.69 + 0.09} \right]$  का मूल्य है

- (A) 2.33 (B) 2.27  
(C) 2.6 (D) 2

58. जब एक खाड़ी के मुहाने पर बैरियर बार और स्पिट बनते हैं और इसे बंद कर देते हैं तो इसका परिणाम होता है

- (A) मुहाना (B) समुद्र तट  
(C) लैगून (D) बाधा चट्टान

59. कॉकरोच का बहिःकंकाल बना होता है

- (A) कोलेजन (B) चिटिन  
(C) कॉन्ड्राटिन (D) कॉन्ड्राटिन सल्फेट

60. आई.टी. अधिनियम की कौन-सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है?

- (A) धारा 62 (B) धारा 67  
(C) धारा 65 (D) धारा 66

61. मोहिनी नौ दिन के पूर्व फिल्म देखने गई। वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन-सा दिन है?

- (A) रविवार (B) मंगलवार  
(C) गुरुवार (D) शनिवार




62. To see the document before the printout is taken, the following option should be used  
 (A) Paste (B) Format painter  
 (C) Insert table (D) Print preview
63. How many smaller pieces have exactly three painted faces when a cube is painted and cut into 729 smaller but identical pieces by making minimum possible number of cuts?  
 (A) 6 (B) 4  
 (C) 8 (D) 7
64. In the following question two statements are followed by two conclusions. Choose the conclusion that can be validly drawn on the basis of the given statements.  
**Statements :**  
 1. Some chalks are dusters.  
 2. All the dusters are boards.  
**Conclusions :**  
 I. Some chalks are boards.  
 II. No duster is a board.  
 (A) Neither Conclusion I nor II follow  
 (B) Both Conclusions I and II follow  
 (C) Only Conclusion I follows  
 (D) Only Conclusion II follows
65. The consequences of a social process that are sought or anticipated, are  
 (A) Social functions  
 (B) Both (D) and (A)  
 (C) Latent functions  
 (D) Manifest functions
66. Who is the present Governor of Reserve Bank of India?  
 (A) Dr. Raghuram G. Rajan  
 (B) Shaktikanta Das  
 (C) Dr. Urjit R. Patel  
 (D) None of the above
67. If succession occurs on bare rock, it is known as  
 (A) Primary succession  
 (B) Physical succession  
 (C) Negative succession  
 (D) None of these
62. प्रिंटआउट लेने से पहले दस्तावेज को देखने के लिए निम्नलिखित विकल्प का प्रयोग किया जाता है  
 (A) पेस्ट (B) फॉरमेट पेन्टर  
 (C) इन्सर्ट टेबल (D) प्रिंट प्रिव्यू
63. जब एक घन को रंगा जाता है और न्यूनतम काट लगाते हुए 729 छोटे परंतु समान टुकड़ों में काटा जाता है तो कितने छोटे टुकड़ों पर रंगे हुए तीन फलक होंगे ?  
 (A) 6 (B) 4  
 (C) 8 (D) 7
64. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के तहत दो निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों के आधार पर वैध रूप से निकाला जा सकता है।  
**कथन :**  
 1. कुछ चॉक डस्टर हैं।  
 2. सभी डस्टर बोर्ड हैं।  
**निष्कर्ष :**  
 I. कुछ चॉक बोर्ड हैं।  
 II. कोई डस्टर बोर्ड नहीं है।  
 (A) न तो निष्कर्ष I न ही II अनुसरण करता है  
 (B) I और II दोनों अनुसरण करते हैं  
 (C) केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है  
 (D) केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है
65. मांगी गई या प्रत्याशित सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम हैं।  
 (A) सामाजिक कार्य  
 (B) (D) और (A) दोनों  
 (C) अव्यक्त कार्य  
 (D) प्रकट कार्य
66. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं ?  
 (A) डॉ. रघुराम जी. राजन  
 (B) शक्तिकांत दास  
 (C) डॉ. उर्जित आर. पटेल  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
67. यदि नंगी चट्टानों पर उत्तरावर्तन होता है, इसे \_\_\_\_\_ कहते हैं।  
 (A) प्राथमिक उत्तरावर्तन  
 (B) भौतिक उत्तरावर्तन  
 (C) कृणात्मक उत्तरावर्तन  
 (D) इनमें से कोई नहीं



A student scores 64% marks in 6 papers of 150 marks each. He scores 25% of his total obtained marks in Hindi and English together. How much is his total score for both these papers?

- (A) 120 (B) 144  
(C) 140 (D) 124

Four different positions of the same dice are shown. Select the number of dots that will be on the face opposite to the one showing '4 dots'.



- (A) 2 (B) 3  
(C) 1 (D) 5

In a presentation you can include information such as the company name or the name of your department in the

- (A) Title (B) Footer box  
(C) Header box (D) Status

1. Which of the following State Governments recently has launched COVID-19 affected Livelihood Support Scheme?

- (A) Manipur (B) Nagaland  
(C) Mizoram (D) None of the above

72. The printed price of a book is Rs. 320. A retailer pays Rs. 244.80 for it. He gets successive discounts of 10% and an another rate. His second rate is

- (A) 14% (B) 16%  
(C) 15% (D) 12%



73. \_\_\_\_\_ comes into play whenever a process is to be removed from the ready queue thereby reducing the degree of multiprogramming.

- (A) Long-term Scheduler  
(B) CPU Scheduler  
(C) Short-term Scheduler  
(D) Medium-term Scheduler

74. Taxes on incomes of the individuals as well as profits of business enterprises is

- (A) Indirect taxes (B) Tariffs  
(C) GST (D) Direct taxes

68. एक छात्र ने प्रत्येकी 150 अंकों के 6 पेपरों में 64% अंक प्राप्त किए। वह अपने कुल प्राप्त अंक का 25% हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त करता है। इन दोनों पेपरों के लिए उसका कुल अंक कितना है?

- (A) 120 (B) 144  
(C) 140 (D) 124

69. एक ही पासे की चार स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। जिस फलक पर 4 बिंदु हैं, उसके विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या चुनिए।



- (A) 2 (B) 3  
(C) 1 (D) 5

70. एक प्रस्तुति में आप सूचना जैसे कंपनी का नाम या अपने विभाग का नाम \_\_\_\_\_ में शामिल कर सकते हैं।

- (A) टाइटल (B) फूटर बॉक्स  
(C) हेडर बॉक्स (D) स्टेटस

71. निम्नलिखित में से कौन-सी राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 प्रभावित जीविका सहायता योजना आरंभ की है?

- (A) मणिपुर (B) नागालैंड  
(C) मिज़ोरम (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

72. एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य रु. 320 है। एक फुटकर विक्रेता इसके लिए रु. 244.80 का भुगतान करता है। उसे उस पर 10% और अन्य दर की क्रमिक छूट मिलती है। उसकी दूसरी दर क्या है?

- (A) 14% (B) 16%  
(C) 15% (D) 12%

73. \_\_\_\_\_ तब भूमिका में आता है जब तैयार पंक्ति से एक प्रक्रिया को हटाना होता है ताकि मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री घटाई जा सके।

- (A) लॉन्ग-टर्म शेड्यूलर  
(B) सी.पी.यू. शेड्यूलर  
(C) शॉर्ट-टर्म शेड्यूलर  
(D) मीडियम-टर्म शेड्यूलर

74. व्यक्तियों की आय पर और साथ ही साथ कारोबारी उद्यमियों के लाभों पर कर

- (A) अप्रत्यक्ष कर (B) शुल्क  
(C) जी.एस.टी. (D) प्रत्यक्ष कर



KVAFSU

\_\_\_\_\_ regulates the functions of securities market, detects malpractice and protects the interests of investors.

- (A) National Securities Depository Limited (NSDL)
- (B) Central Bureau of Investigation (CBI)
- (C) Bombay Stock Exchange (BSE)
- (D) Security and Exchange Board of India (SEBI)

6. After Karyogamy the fertilised egg becomes which structure ?

- (A) Pollen sac
- (B) Ovary
- (C) Zygote
- (D) Embryo

77. If 3<sup>rd</sup> April 1752 is a Monday, which day of the week will 26<sup>th</sup> April 1752 be

- (A) Sunday
- (B) Saturday
- (C) Monday
- (D) Wednesday

78. Which type of irrigation is most efficient water and nutrient delivery system for growing crops ?

- (A) Drip irrigation
- (B) Flood irrigation
- (C) Sprinkler irrigation
- (D) Fog irrigatio

79. Find the odd one out in the group of letters.

- (A) I R
- (B) K O
- (C) B Y
- (D) D W

80. How many times do the minute hand and the hour hand in a clock coincide with each other from 2 p.m. to 8 p.m. in a day ?

- (A) seven
- (B) four
- (C) five
- (D) six

81. Who is the current Chairman of Union Public Service Commission ?

- (A) Smita Nagaraj
- (B) Manoj Soni
- (C) Pradeep Kumar Joshi
- (D) None of the above

82. The primary sector of Economic activities includes

- (A) Agriculture
- (B) Fishing
- (C) Forestry
- (D) All of the above

75.

\_\_\_\_\_ प्रतिभूति बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है, कदाचार का पता लगाता है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है ।

- (A) नेशनल सेक्यूरिटी डेपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)
- (B) सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.)
- (C) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.)
- (D) सेक्यूरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)

76. कैरियोगेमी के बाद नियेचित अंडा कौन-सी संरचना बनाता है ?

- (A) पराग थैली
- (B) अंडाशय
- (C) जड़गोट
- (D) भ्रूण

77. यदि 3 अप्रैल 1752 एक सोमवार है, तो 26 अप्रैल 1752 सप्ताह का कौन-सा दिन होगा ?

- (A) रविवार
- (B) शनिवार
- (C) सोमवार
- (D) बुधवार

78. कौन-सा सिंचाई का प्रकार विकसनशील फसलों के लिए सबसे प्रभावी जल और पोषक तत्व डिलीवरी प्रणाली होता है ?

- (A) ड्रिप सिंचाई
- (B) फ्लड सिंचाई
- (C) स्प्रींकलर सिंचाई
- (D) कोहरा सिंचाई

79. दिए गए अक्षर समूह से बेमेल को चुनिए ।

- (A) I R
- (B) K O
- (C) B Y
- (D) D W

80. एक दिन में 2 p.m. से 8 p.m. तक कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक घड़ी में एक दूसरे के ठीक ऊपर होंगी ?

- (A) सात
- (B) चार
- (C) पाँच
- (D) छः

81. संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं ?

- (A) स्मिता नागराज
- (B) मनोज सोनी
- (C) प्रदीप कुमार जोशी
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

82. आर्थिक गतिविधियों के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं ।

- (A) कृषि
- (B) मत्स्य पालन
- (C) वानिकी
- (D) उपरोक्त में से सभी